



## 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां

(₹ बिलियन)

| मद                                      | 2012             | 2013             |                  | घट – बढ़       |                 |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
|                                         | 5 अक्टूबर        | 27 सितम्बर       | 4 अक्टूबर        | सप्ताह         | वर्ष            |
|                                         | 1                | 2                | 3                | 4              | 5               |
| <b>1 जारी नोट</b>                       | <b>10,844.56</b> | <b>11,862.79</b> | <b>11,908.81</b> | <b>46.02</b>   | <b>1,064.25</b> |
| 1.1 संचलन में नोट                       | 10,844.39        | 11,862.69        | 11,908.70        | 46.01          | 1,064.32        |
| 1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट           | 0.17             | 0.10             | 0.10             | —              | -0.07           |
| <b>2 जमा राशियां</b>                    |                  |                  |                  |                |                 |
| 2.1 केंद्र सरकार                        | 1.00             | 1.00             | 1.01             | —              | 0.01            |
| 2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना               | —                | —                | —                | —              | —               |
| 2.3 राज्य सरकार                         | 0.42             | 0.42             | 0.42             | —              | —               |
| 2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 2,684.81         | 3,273.06         | 3,120.76         | -152.29        | 435.95          |
| 2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | 30.29            | 32.01            | 32.37            | 0.37           | 2.09            |
| 2.6 अन्य बैंक                           | 144.36           | 153.61           | 154.21           | 0.60           | 9.85            |
| 2.7 अन्य                                | 123.51           | 186.28           | 178.12           | -8.16          | 54.60           |
| 3 अन्य देयताएं                          | 6,130.97         | 8,913.02         | 8,750.57         | -162.45        | 2,619.60        |
| <b>कुल देयताएं / आस्तियां</b>           | <b>19,959.92</b> | <b>24,422.19</b> | <b>24,146.27</b> | <b>-275.92</b> | <b>4,186.35</b> |
| 1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 13,470.71        | 15,383.18        | 15,368.11        | -15.07         | 1,897.40        |
| 2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी          | 1,482.52         | 1,446.26         | 1,366.37         | -79.90         | -116.16         |
| 3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित) | 4,827.88         | 6,867.39         | 6,628.41         | -238.98        | 1,800.53        |
| <b>4 ऋण और अग्रिम</b>                   |                  |                  |                  |                |                 |
| 4.1 केंद्र सरकार                        | —                | —                | —                | —              | —               |
| 4.2 राज्य सरकारें                       | 4.98             | 0.80             | 8.99             | 8.19           | 4.01            |
| 4.3 नाबार्ड                             | —                | —                | —                | —              | —               |
| 4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 46.71            | 412.31           | 412.83           | 0.52           | 366.12          |
| 4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | —                | —                | —                | —              | —               |
| 4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक          | —                | —                | —                | —              | —               |
| 4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक            | —                | —                | —                | —              | —               |
| 4.8 अन्य                                | 11.40            | 25.50            | 26.30            | 0.79           | 14.90           |
| <b>5 खरीदे और भुनाए गए बिल</b>          |                  |                  |                  |                |                 |
| 5.1 वाणिज्यिक                           | —                | —                | —                | —              | —               |
| 5.2 खजाना                               | —                | —                | —                | —              | —               |
| 6 निवेश                                 | 13.20            | 13.20            | 13.20            | —              | —               |
| 7 अन्य आस्तियां                         | 102.53           | 273.54           | 322.07           | 48.53          | 219.54          |

## 2. विदेशी मुद्रा भंडार

| मद                                      | 4 अक्टूबर 2013 को |                  | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |                |                          |                  |                |                  |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                         |                   |                  | सप्ताह                     |                | मार्च 2013 की समाप्ति पर |                  | वर्ष           |                  |
|                                         | बिलियन ₹          | मिलि.अम. डॉलर    | बिलियन ₹                   | मिलि.अम. डॉलर  | बिलियन ₹                 | मिलि.अम. डॉलर    | बिलियन ₹       | मिलि.अम. डॉलर    |
|                                         | 1                 | 2                | 3                          | 4              | 5                        | 6                | 7              | 8                |
| <b>1 कुल भंडार</b>                      | <b>17,083.7</b>   | <b>277,727.3</b> | <b>-95.9</b>               | <b>1,463.3</b> | <b>1,199.5</b>           | <b>-14,318.9</b> | <b>1,823.9</b> | <b>-17,312.2</b> |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां              | 15,309.8          | 249,324.6        | -14.6                      | 1,400.1        | 1,183.5                  | -10,401.3        | 1,879.9        | -10,852.1        |
| 1.2 स्वर्ण                              | 1,366.4           | 21,765.4         | -79.9                      | 41.3           | -31.0                    | -3,926.6         | -116.1         | -6,367.5         |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार                   | 272.6             | 4,439.7          | -0.9                       | 14.7           | 37.2                     | 112.1            | 42.5           | -17.2            |
| 1.4 आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति | 134.9             | 2,197.6          | -0.5                       | 7.2            | 9.8                      | -103.1           | 17.6           | -75.4            |

## 3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास नकद जमा शेष

(राशि ₹ बिलियन में)

| 4 अक्टूबर 2013 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ = ₹ 3,047.1 बिलियन | 2013       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                            | 21 सितम्बर | 22 सितम्बर | 23 सितम्बर | 24 सितम्बर | 25 सितम्बर | 26 सितम्बर | 27 सितम्बर | 28 सितम्बर | 29 सितम्बर | 30 सितम्बर | 1 अक्टूबर | 2 अक्टूबर | 3 अक्टूबर | 4 अक्टूबर |
|                                                                                                            | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11        | 12        | 13        | 14        |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष                                                               | 3,178.3    | 3,178.3    | 3,139.2    | 3,091.4    | 3,118.3    | 3,100.7    | 3,273.2    | 3,315.7    | 3,315.7    | 3,242.6    | 3,121.4   | 3,121.4   | 3,084.4   | 3,120.9   |
| औसत दैनिक आरक्षित नकदी अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष                                               | 104.3      | 104.3      | 103.0      | 101.5      | 102.3      | 101.8      | 107.4      | 108.8      | 108.8      | 106.4      | 102.4     | 102.4     | 101.2     | 102.4     |

## 4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ बिलियन)

| मद                                            | 20 सितम्बर<br>2013 को बकाया | निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़ |                      |                |                |                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                               |                             | पखवाड़ा                       | वित्त वर्ष में अब तक |                | वर्ष-दर-वर्ष   |                |
|                                               |                             |                               | 2012-2013            | 2013-2014      | 2012           | 2013           |
|                                               |                             |                               | 3                    | 4              | 5              | 6              |
| <b>1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं</b>     |                             |                               |                      |                |                |                |
| 1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां       | 687.7                       | 0.2                           | -65.4                | -158.8         | 88.3           | -89.4          |
| 1.2 बैंकों से उधार                            | 258.2                       | -30.8                         | -60.8                | -135.4         | 14.9           | -0.2           |
| 1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं               | 94.2                        | 13.9                          | 18.0                 | 3.3            | -19.7          | 14.7           |
| <b>2 अन्य के प्रति देयताएं</b>                |                             |                               |                      |                |                |                |
| 2.1 कुल जमाराशियां                            | 71,763.5                    | 26.3                          | 3,830.9              | 4,259.0        | 7,573.2        | 8,841.8        |
| 2.1.1 वृद्धि (प्रतिशत)                        |                             | 0.0                           | 6.5                  | 6.3            | 13.7           | 14.1           |
| 2.1.1.1 मांग                                  | 7,043.5                     | 495.4                         | -266.5               | 420.6          | 379.4          | 1,056.7        |
| 2.1.1.2 मीयादी                                | 64,720.0                    | -469.1                        | 4,097.3              | 3,838.5        | 7,193.8        | 7,785.1        |
| 2.2 उधार                                      | 2,546.0                     | -119.1                        | -53.8                | 329.4          | 288.8          | 535.3          |
| 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं               | 4,079.3                     | -177.0                        | 17.1                 | -37.1          | 151.9          | 328.3          |
| <b>3 रिज़र्व बैंक से उधार</b>                 | <b>422.3</b>                | <b>57.5</b>                   | <b>77.1</b>          | <b>206.4</b>   | <b>137.7</b>   | <b>257.6</b>   |
| <b>4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष</b> | <b>3,636.4</b>              | <b>-89.0</b>                  | <b>-3.5</b>          | <b>408.8</b>   | <b>-271.3</b>  | <b>45.9</b>    |
| 4.1 पास में नकदी                              | 430.0                       | 9.7                           | 46.6                 | 25.0           | 47.8           | 22.1           |
| 4.2 रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष               | 3,206.5                     | -98.6                         | -50.1                | 383.8          | -319.1         | 23.9           |
| <b>5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</b>      |                             |                               |                      |                |                |                |
| 5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष                    | 1,044.4                     | 26.7                          | 86.2                 | 83.6           | 243.5          | 251.6          |
| 5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि        | 197.3                       | 26.9                          | -21.6                | -98.8          | 26.8           | -13.9          |
| 5.3 बैंकों को अग्रिम                          | 143.0                       | 10.4                          | -60.3                | 16.1           | -6.8           | 67.4           |
| 5.4 अन्य आस्तियां                             | 484.2                       | -52.8                         | -19.0                | -331.6         | -52.5          | -200.7         |
| <b>6 निवेश</b>                                | <b>21,181.0</b>             | <b>-293.0</b>                 | <b>2,099.7</b>       | <b>1,120.0</b> | <b>2,453.9</b> | <b>1,703.5</b> |
| 6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                        |                             | -1.4                          | 12.1                 | 5.6            | 14.4           | 8.7            |
| 6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में                   | 21,145.5                    | -304.4                        | 2,102.4              | 1,108.9        | 2,469.0        | 1,692.9        |
| 6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में            | 35.6                        | 11.4                          | -2.7                 | 11.0           | -15.1          | 10.6           |
| <b>7 बैंक ऋण</b>                              | <b>56,171.8</b>             | <b>39.3</b>                   | <b>1,518.9</b>       | <b>3,567.2</b> | <b>6,689.1</b> | <b>8,534.4</b> |
| 7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                        |                             | 0.1                           | 3.3                  | 6.8            | 16.3           | 17.9           |
| 7 क.1 खाद्य ऋण                                | 991.5                       | -22.8                         | 112.8                | 27.3           | 243.3          | 65.7           |
| 7 क.2 खाद्येतर ऋण                             | 55,180.3                    | 62.0                          | 1,406.1              | 3,539.9        | 6,445.8        | 8,468.7        |
| 7 ख.1 ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट           | 54,202.6                    | 131.6                         | 1,559.9              | 3,610.8        | 6,440.1        | 8,282.9        |
| 7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए                       | 303.9                       | 11.7                          | 29.8                 | 55.3           | 74.0           | 110.7          |
| 7 ख.3 भुनाए गए                                | 986.9                       | -61.3                         | -15.2                | -107.7         | 172.3          | 22.3           |
| 7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए                     | 224.1                       | -17.3                         | -26.0                | 9.2            | 0.2            | 38.4           |
| 7 ख.5 भुनाए गए                                | 454.4                       | -25.3                         | -29.6                | -0.3           | 2.5            | 80.2           |

## 5. अनुपात और दर

(प्रतिशत)

| मद/समाप्त सप्ताह                                    | 2012       | 2013       |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                     | 5 अक्टूबर  | 6 सितम्बर  | 13 सितम्बर | 20 सितम्बर | 27 सितम्बर | 4 अक्टूबर  |
|                                                     | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| <b>अनुपात</b>                                       |            |            |            |            |            |            |
| आरक्षित नकदी निधि अनुपात                            | 4.50       | 4.00       | 4.00       | 4.00       | 4.00       | 4.00       |
| सांविधिक चलनिधि अनुपात                              | 23.00      | 23.00      | 23.00      | 23.00      | 23.00      | 23.00      |
| नकदी-जमाराशि अनुपात                                 | 4.80       | 5.19       | ..         | 5.07       | ..         | ..         |
| ऋण-जमाराशि अनुपात                                   | 75.08      | 78.25      | ..         | 78.27      | ..         | ..         |
| वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात                         | 40.22      | 83.35      | ..         | 83.76      | ..         | ..         |
| निवेश-जमाराशि अनुपात                                | 31.12      | 29.93      | ..         | 29.52      | ..         | ..         |
| वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात                      | 51.27      | 33.38      | ..         | 26.30      | ..         | ..         |
| <b>दर</b>                                           |            |            |            |            |            |            |
| नीतिगत रिपो दर                                      | 8.00       | 7.25       | 7.25       | 7.50       | 7.50       | 7.50       |
| रिवर्स रिपो दर                                      | 7.00       | 6.25       | 6.25       | 6.50       | 6.50       | 6.50       |
| मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर                  | 9.00       | 10.25      | 10.25      | 9.50       | 9.50       | 9.50       |
| बैंक दर                                             | 9.00       | 10.25      | 10.25      | 9.50       | 9.50       | 9.50       |
| आधार दर                                             | 9.75/10.50 | 9.70/10.25 | 9.70/10.25 | 9.80/10.25 | 9.80/10.25 | 9.80/10.25 |
| सावधी जमा दर >1 वर्ष                                | 8.50/9.25  | 8.00/9.00  | 8.00/9.00  | 8.00/9.00  | 8.00/9.00  | 8.00/9.05  |
| बचत जमाराशि दर                                      | 4.00       | 4.00       | 4.00       | 4.00       | 4.00       | 4.00       |
| मांग मुद्रा दर (भारांकित औसत)                       | 7.81       | 10.10      | 10.38      | 10.29      | 9.46       | 9.44       |
| 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                   | 8.06       | 11.26      | 10.66      | 10.45      | 9.69       | 9.57       |
| 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | ..         | ..         | 10.20      | ..         | 9.47       | ..         |
| 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | 8.00       | 9.89       | ..         | 9.46       | ..         | 8.92       |
| 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय                       | 8.16       | 8.63       | 8.49       | 8.58       | 8.71       | 8.67       |
| <b>भारिबैं संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमियम</b>       |            |            |            |            |            |            |
| आईएनआर-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा) | 51.62      | 65.96      | 63.79      | 62.24      | 61.81      | 61.41      |
| आईएनआर-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)        | 67.17      | 86.58      | 84.67      | 84.23      | 83.42      | 83.68      |
| अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमियम 1-माह              | 7.79       | 10.01      | 10.44      | 9.93       | 10.97      | 10.36      |
| 3-माह                                               | 7.21       | 9.19       | 9.91       | 9.22       | 9.93       | 9.45       |
| 6-माह                                               | 6.70       | 7.90       | 8.90       | 8.44       | 9.04       | 8.65       |

## 6. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                 | निम्न को बकाया |            | निम्न की तुलना में घट-बढ़ |       |                      |       |           |      |              |       |         |       |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|-------|----------------------|-------|-----------|------|--------------|-------|---------|-------|
|                                                    | 2013           |            | पखवाड़ा                   |       | वित्त वर्ष में अब तक |       |           |      | वर्ष-दर-वर्ष |       |         |       |
|                                                    |                |            |                           |       | 2012-2013            |       | 2013-2014 |      | 2012         |       | 2013    |       |
|                                                    | 31 मार्च       | 20 सितम्बर | राशि                      | %     | राशि                 | %     | राशि      | %    | राशि         | %     | राशि    | %     |
|                                                    | 1              | 2          | 3                         | 4     | 5                    | 6     | 7         | 8    | 9            | 10    | 11      | 12    |
| एम३                                                | 83,820.2       | 87,949.2   | 42.8                      | 0.0   | 4,517.5              | 6.1   | 4,129.0   | 4.9  | 9,378.1      | 13.6  | 9,783.3 | 12.5  |
| 1 घटक                                              |                |            |                           |       |                      |       |           |      |              |       |         |       |
| 1.1 जनता के पास मुद्रा                             | 11,447.4       | 11,666.9   | 18.1                      | 0.2   | 410.6                | 4.0   | 219.5     | 1.9  | 1,225.1      | 13    | 1,029.8 | 9.7   |
| 1.2 बैंकों के पास मांग जमा                         | 7,469.6        | 7,837.0    | 492.1                     | 6.7   | -294.8               | -4.1  | 367.5     | 4.9  | 422.0        | 6.6   | 1,022.1 | 15    |
| 1.3 बैंकों के पास मीयादी जमा                       | 64,870.9       | 68,404.8   | -462.7                    | -0.7  | 4,413.3              | 7.8   | 3,533.9   | 5.4  | 7,737.5      | 14.6  | 7,707.5 | 12.7  |
| 1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा                 | 32.4           | 40.5       | -4.7                      | -10.4 | -11.6                | -41.0 | 8.1       | 25.1 | -6.5         | -28.0 | 23.9    | 143.3 |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)                      |                |            |                           |       |                      |       |           |      |              |       |         |       |
| 2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण                          | 27,072.1       | 29,039.7   | -364.3                    | -1.2  | 2,183.8              | 9.2   | 1,967.6   | 7.3  | 4,377.8      | 20.3  | 3,139.0 | 12.1  |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक                                 | 5,905.8        | 6,798.1    | -58.3                     |       | 4.7                  |       | 892.4     |      | 1,795.4      |       | 1,436.1 |       |
| 2.1.2 अन्य बैंक                                    | 21,166.3       | 22,241.5   | -306.1                    | -1.4  | 2,179.1              | 11.9  | 1,075.2   | 5.1  | 2,582.3      | 14.4  | 1,702.9 | 8.3   |
| 2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण                     | 56,646.6       | 59,979.2   | 52.4                      | 0.1   | 1,868.5              | 3.8   | 3,332.5   | 5.9  | 7,285.9      | 16.5  | 8,526.2 | 16.6  |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक                                 | 30.6           | 37.8       | —                         |       | -3.4                 |       | 7.2       |      | 18.3         |       | 1.6     |       |
| 2.2.2 अन्य बैंक                                    | 56,616.1       | 59,941.4   | 52.4                      | 0.1   | 1,872.0              | 3.8   | 3,325.3   | 5.9  | 7,267.6      | 16.5  | 8,524.6 | 16.6  |
| 2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां | 16,366.6       | 17,225.5   | -766.6                    | -4.3  | 592.9                | 3.8   | 858.9     | 5.2  | 492.3        | 3.2   | 1,194.8 | 7.5   |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं          | 153.4          | 157.2      | —                         | —     | 9.3                  | 6.9   | 3.8       | 2.5  | 18.9         | 15.1  | 13.5    | 9.4   |
| 2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रा देयताएं         | 16,418.5       | 18,452.3   | -1,121.3                  | -5.7  | 136.9                | 0.9   | 2,033.8   | 12.4 | 2,796.8      | 22.3  | 3,090.1 | 20.1  |
| 2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रा देयताएं          | 6,925.0        | 8,855.7    | -691.1                    | -7.2  | 763.3                | 12.6  | 1,930.7   | 27.9 | 1,534.9      | 29.1  | 2,054.0 | 30.2  |

## 7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                               | निम्न को बकाया |           | निम्न की तुलना में घट-बढ़ |       |                      |       |           |      |              |       |         |       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------|----------------------|-------|-----------|------|--------------|-------|---------|-------|
|                                                                  | 2013           |           | सप्ताह                    |       | वित्त वर्ष में अब तक |       |           |      | वर्ष-दर-वर्ष |       |         |       |
|                                                                  |                |           |                           |       | 2012-2013            |       | 2013-2014 |      | 2012         |       | 2013    |       |
|                                                                  | 31 मार्च       | 4 अक्टूबर | राशि                      | %     | राशि                 | %     | राशि      | %    | राशि         | %     | राशि    | %     |
|                                                                  | 1              | 2         | 3                         | 4     | 5                    | 6     | 7         | 8    | 9            | 10    | 11      | 12    |
| आरक्षित मुद्रा                                                   | 15,148.9       | 15,415.4  | -113.5                    | -0.7  | -397.6               | -2.8  | 266.6     | 1.8  | 455.3        | 3.4   | 1,549.6 | 11.2  |
| 1 घटक (1.1+1.2+1.3)                                              |                |           |                           |       |                      |       |           |      |              |       |         |       |
| 1.1 संचलन में करेंसी                                             | 11,909.8       | 12,071.0  | 46.0                      | 0.4   | 315.8                | 3.0   | 161.2     | 1.4  | 1,059.0      | 10.7  | 1,082.9 | 9.9   |
| 1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंक की जमा                              | 3,206.7        | 3,307.3   | -151.3                    | -4.4  | -703.5               | -19.7 | 100.6     | 3.1  | -598.7       | -17.3 | 447.9   | 15.7  |
| 1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा                               | 32.4           | 37.1      | -8.2                      | -18.0 | -9.9                 | -35.1 | 4.7       | 14.5 | -5.1         | -21.7 | 18.8    | 102.6 |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)                                    |                |           |                           |       |                      |       |           |      |              |       |         |       |
| 2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण                | 5,905.8        | 6,637.1   | -231.1                    |       | -524.6               |       | 731.3     |      | 1,411.5      |       | 1,804.3 |       |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण             | 5,905.0        | 6,628.5   | -239.3                    |       | -515.9               |       | 723.5     |      | 1,408.1      |       | 1,800.3 |       |
| 2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण | 434.1          | 452.1     | 1.3                       |       | -17.0                |       | 18.0      |      | 24.6         |       | 381.0   |       |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को दिया गया ऋण                  | 403.5          | 414.4     | 0.5                       |       | -0.5                 |       | 10.9      |      | 14.7         |       | 366.4   |       |
| 2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां                  | 15,580.6       | 16,734.1  | -95.0                     | -0.6  | 231.0                | 1.6   | 1,153.5   | 7.4  | -53.6        | -0.4  | 1,781.1 | 11.9  |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता                          | 153.4          | 162.3     | —                         | —     | 9.3                  | 6.9   | 8.9       | 5.8  | 18.9         | 15.1  | 18.6    | 12.9  |
| 2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रा देयता                            | 6,925.0        | 8,570.2   | -211.3                    | -2.4  | 96.3                 | 1.6   | 1,645.2   | 23.8 | 946.1        | 18.2  | 2,435.5 | 39.7  |

## 8. भारिबैं द्वारा चलनिधि परिचालन

(₹ बिलियन)

| दिनांक          | चलनिधि समायोजन सुविधा |             | एमएसएफ | स्थायी चलनिधि सुविधा | ओएमओ (तत्काल) |      | निवल अंतर्वेशन<br>(+) / अवशोषण (-)<br>(1+3+4+6-2-5) |
|-----------------|-----------------------|-------------|--------|----------------------|---------------|------|-----------------------------------------------------|
|                 | रिपो                  | रिवर्स रिपो |        |                      | विक्रय        | क्रय |                                                     |
|                 | 1                     | 2           |        |                      | 5             | 6    |                                                     |
| 30 सितम्बर 2013 | 377.41                | 155.86      | 915.95 | 55.66                | —             | —    | 1,193.16                                            |
| 1 अक्टूबर 2013  | 391.52                | 16.20       | 447.56 | 2.26                 | —             | —    | 825.14                                              |
| 3 अक्टूबर 2013  | 405.21                | 0.50        | 321.03 | -7.92                | —             | —    | 717.82                                              |
| 4 अक्टूबर 2013  | 379.68                | 12.51       | 387.18 | -48.66               | —             | —    | 705.69                                              |

## 9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

| मद                                                                  | 2012         |              | 2013         |              | प्रतिशत अंतर |            |             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
|                                                                     | जुलाई        | अगस्त        | जुलाई        | अगस्त        | माह          | मार्च      | वर्ष        |
|                                                                     | 1            | 2            | 3            | 4            | 5            | 6          | 7           |
| <b>1 थोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100)</b>                            | <b>165.8</b> | <b>167.3</b> | <b>175.4</b> | <b>177.5</b> | <b>1.2</b>   | <b>4.4</b> | <b>6.1</b>  |
| 1.1 प्राथमिक वस्तुएं                                                | 219.1        | 221.8        | 238.8        | 247.8        | 3.8          | 11.1       | 11.7        |
| 1.2 ईंधन और बिजली                                                   | 179.5        | 181.7        | 199.8        | 202.3        | 1.3          | 5.6        | 11.3        |
| 1.3 विनिर्मित उत्पाद                                                | 146.1        | 147.2        | 150.2        | 150.0        | - 0.1        | 0.9        | 1.9         |
| <b>2 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2010=100)</b>                          | <b>121.4</b> | <b>122.9</b> | <b>133.1</b> | <b>134.6</b> | <b>1.1</b>   | <b>5.6</b> | <b>9.5</b>  |
| 2.1 ग्रामीण                                                         | 122.6        | 124.3        | 133.8        | 135.4        | 1.2          | 5.5        | 8.9         |
| 2.2 शहरी                                                            | 119.9        | 121.1        | 132.1        | 133.6        | 1.1          | 5.6        | 10.3        |
| <b>3 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100)</b> | <b>212.0</b> | <b>214.0</b> | <b>235.0</b> | <b>237.0</b> | <b>0.9</b>   | <b>5.8</b> | <b>10.7</b> |

## 10. जमा प्रमाणपत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                       |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                          | 1                       | 2                     |
| 23 अगस्त 2013  | 3,110.6                  | 87.8                    | 9.64 - 11.70          |
| 6 सितम्बर 2013 | 3,010.8                  | 272.1                   | 9.37 - 11.95          |

## 11. वाणिज्यिक पेपर

| समाप्त पखवाड़ा  | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                          |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                 |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज की दर<br>(प्रतिशत) |
|                 |                          | 1                       | 2                        |
| 31 अगस्त 2013   | 1,182.9                  | 97.6                    | 9.50 - 14.31             |
| 15 सितम्बर 2013 | 1,081.9                  | 170.3                   | 8.17 - 13.80             |

## 12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ बिलियन)

| मद                       | समाप्त सप्ताह  |                 |                |
|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                          | 5 अक्टूबर 2012 | 27 सितम्बर 2013 | 4 अक्टूबर 2013 |
|                          | 1              | 2               | 3              |
| 1 मांग मुद्रा            | 264.6          | 266.0           | 227.4          |
| 2 नोटिस/सावधि मुद्रा     | 113.9          | 70.2            | 94.5           |
| 3 सीबीएलओ                | 1,291.4        | 1,493.6         | 967.6          |
| 4 बाजार रिपो             | 1,441.4        | 916.7           | 1,051.5        |
| 5 कारपोरेट बांड में रिपो | —              | 7.8             | —              |

## 13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ बिलियन)

| 4 अक्टूबर 2013 को | प्रमुख धारक |                   |               | कुल     |
|-------------------|-------------|-------------------|---------------|---------|
|                   | बैंक        | प्राथमिक व्यापारी | राज्य सरकारें |         |
|                   | 1           | 2                 | 3             |         |
| 14-दिवसीय         | —           | —                 | 555.5         | 566.1   |
| 91-दिवसीय         | 305.0       | 240.5             | 627.5         | 1,521.4 |
| 182-दिवसीय        | 232.2       | 205.4             | 9.8           | 611.0   |
| 364-दिवसीय        | 239.6       | 528.7             | 6.9           | 1,320.1 |
| सीएमबी            | 179.3       | 80.3              | —             | 519.9   |

## 14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ बिलियन में)

| मद               | जुटाई गई समग्र राशि            |                                |         | जुटाई गई निवल राशि             |                                |         |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|---------|
|                  | 2013-14<br>(4 अक्टूबर 2013 तक) | 2012-13<br>(5 अक्टूबर 2012 तक) | 2012-13 | 2013-14<br>(4 अक्टूबर 2013 तक) | 2012-13<br>(5 अक्टूबर 2012 तक) | 2012-13 |
|                  | 1                              | 2                              | 3       | 4                              | 5                              | 6       |
| 1. भारत सरकार    | 3,440.0                        | 3,700.0                        | 5,580.0 | 2,692.7                        | 2,843.8                        | 4,673.8 |
| 2. राज्य सरकारें | 759.4                          | 824.8                          | 1,772.8 | 443.6                          | 720.9                          | 1,466.5 |

स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में ₹ 950 तथा विदेश में 45 अमरीकी डॉलर है।

श्री संजय कुमार हाँसदा द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटोग्राफी सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 28 मुंबई समाचार मार्ग, राजा बहादुर बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई - 400 023 में मुद्रित।

संपादक श्री संजय कुमार हाँसदा।